

## Duranto Demat Account Opening Form based on existing IDBI Bank KYC

NSDL's IDBI Bank (DP ID IN300450)

NSDL Client -ID

OBST / STAFF Code:

I/We request you to open a NSDL depository account in (IDBI Bank-DP) in my/our name relying on the KYC provided by me/us in my/our  Savings Account /  Current Account No.

IFSC:  MICR: 

My/our key details for opening NSDL depository account are given below:

	First Holder	Second Holder	Third Holder
Name			
Father's / Spouse Name			
PAN			
Date of Birth			
Full Address with Pincode			
Occupation <small>(Please choose from Service, Student, Housewife, Landlord, Business, Professional, Agriculture &amp; Others)</small>			
Email*			
Mobile Number*			
SMS Alert Facility	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Gross Annual Income <small>(Please choose from Below 1 Lakh, 1-5 Lakhs, 5-10 Lakhs, 10-25 Lakhs, More than 25 Lakhs)</small>			
Type of Account	Ordinary Resident	Family flag : <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
Please tick if applicable	<input type="checkbox"/> Politically Exposed Person (PEP) <input type="checkbox"/> Related to a Politically Exposed Person (PEP)		
I wish to open:	<input type="checkbox"/> Regular Demat Account <input type="checkbox"/> BSDA Account		
Mode of receiving Statement of Account	<input type="checkbox"/> Electronic <input type="checkbox"/> Physical		
I/We authorise you to receive credits including dividends (if any) automatically into my/our account. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			

### \*To be obtained if not available in Bank KYC records

#### Declaration:

- I/We hereby provide consent to link my/our Bank Account Number and capture my/our signature(s) available in the above stated Bank Account to my Demat account
- The rules and regulations of the Depository and Depository Participants pertaining to an account which are in force now have been read by me/us and I/we have understood the same and I/we agree to abide by and to be bound by the rules as are in force from time to time for such accounts. I/we hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/we undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am/ we are aware that I/we may be held liable for it. In case non-resident account, I/we also declare that I/we have complied and will continue to comply with FEMA regulations. I/we acknowledge the receipt of copy of the document, "Rights and Obligations of the Beneficial Owner and Depository Participant".
- I / We have read and understood the Schedule of Facilities applicable for Demat account as available in the IDBI Bank website. I / We have read / understood the terms and condition as applicable to Account opening / Scheme Code upgrade or downgrade and other operational aspect. I / We understand that the terms and condition may be revised by the Bank from time to time. I shall also be responsible for regularly reviewing these terms, including the amendments that are posted on the website. I / we also agree to pay charges as per the Bank Policy and authorize to debit my account towards any charges.

### Nomination Details

I/We wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) who shall receive all the assets held in my / our account in the event of my / our death.

Nomination can be made upto three nominees in the account.	Details of 1 <sup>st</sup> Nominee	Details of 2 <sup>nd</sup> Nominee	Details of 3 <sup>rd</sup> Nominee
1 Name of the nominee(s) (Mr./Ms.)			
2 Share of each Nominee Equally <input type="checkbox"/> [If not equally, please specify percentage]	%	%	%
<i>Any odd lot after division shall be transferred to the first nominee mentioned in the form.</i>			
3 Relationship With the Applicant ( If Any)			
4 Address of Nominee(s) City / Place: State & Country & Pin Code:			
5 Mobile / Telephone No. of nominee(s)			
6 Email ID of nominee(s)			
7 Nominee Identification details <input type="checkbox"/> Photograph & Signature <input type="checkbox"/> PAN <input type="checkbox"/> Aadhaar <input type="checkbox"/> Saving Bank A/c No <input type="checkbox"/> POI <input type="checkbox"/> Demat A/c No			

### Declaration Form for opting out of nomination

I / We hereby confirm that I / We do not wish to appoint any nominee(s) in my / our trading / demat account and understand the issues involved in non-appointment of nominee(s) and further are aware that in case of death of all the account holder(s), my / our legal heirs would need to submit all the requisite documents / information for claiming of assets held in my / our trading / demat account, which may also include documents issued by Court or other such competent authority, based on the value of assets held in the trading / demat account.

Signature of Client	First Holder	Second Holder	Third Holder

### Notes.

1. All communication shall be sent at the address of the Sole/First holder only.
2. Thumb impressions and signatures other than English or Hindi or any of the other language not contained in the 8th Schedule of the Constitution of India must be attested by a Magistrate or a Notary Public or a Special Executive Magistrate.
3. For receiving Statement of Account in electronic form:
  - I. Client must ensure the confidentiality of the password of the email account.
  - II. Client must promptly inform the Participant if the email address has changed.
  - III. Client may opt to terminate this facility by giving 10 days prior notice. Similarly, Participant may also terminate this facility by giving 10 days prior notice.
4. The pattern of holding in the Demat account shall be as per the Bank Account.
5. This nomination shall supersede any prior nomination made by the account holder(s), if any
6. If Clients wants to appoint a minor as a nominee, then a separate Nomination form may be obtained.
7. If client wish to receive Annual Reports, AGM notices in physical form, please inform your DP.

### Branch Head / SOM Declaration:

"I hereby certify that the customer is KYC complied as per Bank guidelines, it is verified by me as per Bank record. Based on this, the account may be opened."

Date: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

**Signature (EIN and Stamp)**

# Customer Copy (To be handed over to customer)

## सेबी और डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित के अनुसार लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी सहभागी के अधिकार एवं सीमाएं Rights and Obligations of Beneficial Owner and Depository Participant as prescribed by SEBI and Depositories

### सामान्य खंड/ General Clause

1. लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, सेबी (डिपॉजिटरीज और सहभागी) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के नियमों और विनियमों, उनके अधीन जारी किए गए परिपत्रों/अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों, डिपॉजिटरीज के द्वारा जारी उप-विधियाँ और कारोबार नियम/परिचालन अनुदेश और सरकारी प्राधिकरणों की प्रासंगिक अधिसूचनाओं से आबद्ध होंगे जैसा कि समय-समय पर लागू होगा।

The Beneficial Owner and the Depository participant (DP) shall be bound by the provisions of the Depositories Act, 1996, SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996, Rules and Regulations of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Circulars/Notifications/Guidelines issued there under, Bye Laws and Business Rules/Operating Instructions issued by the Depositories and relevant notifications of Government Authorities as may be in force from time to time.

2. समय-समय पर सेबी द्वारा निर्धारित के अनुसार भरे हुए खाता खोलने के फॉर्म, केवाईसी और सहायक दस्तावेज की प्राप्ति के बाद ही डीपी किसी लाभार्थी स्वामी (बीओ) के डीमैट खाते डिपॉजिटरी प्रणाली में खोलेंगे/सक्रिय करेंगे।

The DP shall open/activate demat account of a beneficial owner in the depository system only after receipt of complete Account opening form, KYC and supporting documents as specified by SEBI from time to time.

### लाभार्थी स्वामी की जानकारी / Beneficial Owner information

3. डीपी लाभार्थी स्वामी (बीओ) के सभी विवरण, जैसे कि खाता खोलने के फॉर्म में उल्लिखित, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सहायक दस्तावेजों और/या लाभार्थी स्वामी की गोपनीयता से संबंधित जानकारी अपने पास रखेगा और उसका प्रकटन किसी व्यक्ति को नहीं करेगा बशर्तें इस संबंध में किसी सांविधिक, विधिक या विनियामक प्राधिकारी द्वारा अर्पित न हो।

The DP shall maintain all the details of the beneficial owner(s) as mentioned in the account opening form, supporting documents submitted by them and/or any other information pertaining to the beneficial owner confidentially and shall not disclose the same to any person except as required by any statutory, legal or regulatory authority in this regard.

4. डीमैट खाते खोलने के दौरान या समय-समय पर डीपी को प्रस्तुत किए गए खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए विवरण में कोई परिवर्तन होने पर लाभार्थी स्वामी तत्काल डीपी को लिखित में अधिसूचित करें।

The Beneficial Owner shall immediately notify the DP in writing, if there is any change in details provided in the account opening form as submitted to the DP at the time of opening the demat account or furnished to the DP from time to time.

### शुल्क/प्रभार/टैरिफ / Fees/Charges/Tariff

5. लाभार्थी स्वामी प्रतिभूतियों के धारण और अंतरण डीमैटरेयलाइज रूप में करने और डिपॉजिटरी सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से डीपी द्वारा उपलब्ध कराई गई टैरिफ शीट में निर्धारित के अनुसार डीपी तथा लाभार्थी स्वामी के बीच समय-समय पर किए गए करार के अंतर्गत लाभार्थी स्वामी ऐसे सभी प्रभारों का भुगतान डीपी को करेंगे। लाभार्थी स्वामी को यह सूचित किया जाता है कि " डीमैट खाते खोलने के लिए कोई प्रभार देय नहीं है"

The Beneficial Owner shall pay such charges to the DP for the purpose of holding and transfer of securities in dematerialized form and for availing depository services as may be agreed to from time to time between the DP and the Beneficial Owner set out in the Tariff Sheet provided by the DP. It may be informed to the Beneficial Owner that "no charges are payable for opening of demat accounts"

6. बेसिक सर्विस डीमैट खातों के मामले में डीपी सेबी और/या डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों/ अधिसूचनाओं के अधीन निर्धारित प्रभार संरचना का अनुपालन करेंगे।

In case of Basic Services Demat Accounts, the DP shall adhere to the charge structure as laid down under the relevant SEBI and/or Depository circulars/directions/notifications issued from time to time.

7. डीपी निर्धारित किए गए प्रभारों/टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं करेगा जब तक इस संबंध में लाभार्थी स्वामी को कम से कम 30 दिन पहले लिखित में एक नोटिस न दिया गया हो।

The DP shall not increase any charges/tariff agreed upon unless it has given a notice in writing of not less than thirty days to the Beneficial Owner regarding the same.

### डीमैटरेयलाइजेशन / Dematerialization

8. लाभार्थी स्वामी को उन प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का अधिकार होगा जो डिपॉजिटरीज द्वारा निर्धारित उप-विधि/परिचालन अनुदेश/कारोबार नियमों के अंतर्गत निर्धारित हो, डिपॉजिटरीज पर मान्य हों, स्वरूप एवं प्रणाली में डीमैटरेयलाइज हो।

The Beneficial Owner shall have the right to get the securities, which have been admitted on the Depositories, dematerialized in the form and manner laid down under the Bye Laws, Business Rules and Operating Instructions of the depositories.

### अलग खाते / Separate Accounts

9. डीपी प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के नाम में अलग खाते खोलेंगे और प्रत्येक लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों को अलग किया जाएगा तथा अन्य लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों और/या डीमैटरेयलाइज रूप में डीपी की अपनी प्रतिभूतियों के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा।

The DP shall open separate accounts in the name of each of the beneficial owners and securities of each beneficial owner shall be segregated and shall not be mixed up with the securities of other beneficial owners and/or DP's own securities held in dematerialized form.

10. डीपी लाभार्थी स्वामी को ऐसी प्रतिभूतियों के सम्पूर्ण रूप से या एकल रूप में सृजन या गिरवी और/या ट्रेडिबलक या अन्य कोई हित या ऋण-भार की अनुमति प्रदान नहीं करेगा जो डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996, सेबी (डिपॉजिटरीज और सहभागी) विनियम, 1996 और डिपॉजिटरीज के उप-विधि/परिचालन

The DP shall not facilitate the Beneficial Owner to create or permit any pledge and /or hypothecation or any other interest or encumbrance over all or any of such securities submitted for dematerialization and/or held in demat account except in the form and manner prescribed in the Depositories Act, 1996, SEBI (अनुदेश/कारोबार नियमों के अनुसार निर्धारित स्वरूप एवं प्रणाली के अतिरिक्त डीमैटरेयलाइजेशन के लिए प्रस्तुत और/या डीमैट खाते में धारित हैं.)

(Depositories and Participants) Regulations, 1996 and Bye-Laws/Operating Instructions/Business Rules of the Depositories.)

### प्रतिभूतियों का अंतरण / Transfer of Securities

11. लाभार्थी स्वामी द्वारा यथाविधि प्राधिकृत किसी आदेश, अनुदेश, निर्देश या अधिदेश के आधार पर ही डीपी लाभार्थी स्वामी के डीमैट खातों में और द्वारा अंतरण को संपन्न करेंगे।

The DP shall effect transfer to and from the demat accounts of the Beneficial Owner only on the basis of an order, instruction, direction or mandate duly authorized by the Beneficial Owner and the DP shall maintain the original documents and the audit trail of such authorizations.

12. लाभार्थी स्वामी के पास अपने डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को जमा करने के संबंध में स्थायी अनुदेश देने का अधिकार सुरक्षित है और डीपी ऐसे अनुदेशों के अनुसार कार्यवाई करेंगे।

The Beneficial Owner reserves the right to give standing instructions with regard to the crediting of securities in his demat account and the DP shall act according to such instructions.

### खाता विवरण / Statement of account

13. लाभार्थी स्वामी के साथ तब किए गए स्वरूप एवं प्रणाली तथा समय के अनुसार और इस संबंध में सेबी/डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित के अनुसार लाभार्थी स्वामी को खातों के विवरण उपलब्ध कराएंगे।

The DP shall provide statements of accounts to the beneficial owner in such form and manner and at such time as agreed with the Beneficial Owner and as specified by SEBI/depository in this regard.

14. तथापि यदि डीमैट खाते में कोई लेनदेन नहीं हुआ है, या यदि वर्ष के दौरान शेष राशि शून्य हो गई तो डीपी को वार्षिक धारिता की कागजी विवरणी ऐसे बीओ को भेजनी चाहिए और जब भी खाते में कोई लेनदेन होते हैं, तब लेनदेन के विवरण भेजे जाएंगे।

However, if there is no transaction in the demat account, or if the balance has become Nil during the year, the DP shall send one physical statement of holding annually to such BOs and shall resume sending the transaction statement as and when there is a transaction in the account.

15. डीपी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डीमैट खातों के विवरण जारी करने की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं बशर्तें लाभार्थी स्वामी इसके लिए इच्छुक हो। डीपी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन नियमों से शासित के अनुसार अपने डिजिटल हस्ताक्षर सहित डीमैट खातों के विवरण लाभार्थी स्वामी को प्रस्तुत करेंगे।

तथापि यदि डीपी के पास डीमैट खाते का विवरण इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रस्तुत करने की सुविधा नहीं है तब सहभागी डीमैट खातों के विवरण को कागजी रूप में अर्पित करेंगे।

The DP may provide the services of issuing the statement of demat accounts in an electronic mode if the Beneficial Owner so desires. The DP will furnish to the Beneficial Owner the statement of demat accounts under its digital signature, as governed under the Information Technology Act, 2000. However if the DP does not have the facility of providing the statement of demat account in the electronic mode, then the Participant shall be obliged to forward the statement of demat accounts in physical form.

16. बेसिक सर्विस डीमैट खातों के मामले में डीपी सेबी और/या डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर जारी अधिदेश के अनुसार लेनदेनों के विवरण भेजेंगे।

In case of Basic Services Demat Accounts, the DP shall send the transaction statements as mandated by SEBI and/or Depository from time to time.

# Customer Copy (To be handed over to customer)

## डीमैट खाते को बंद करने की प्रक्रिया / Manner of Closure of Demat account

17. पी के पास लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते, कारण चाहे कोई भी हो, को बंद करने का अधिकार होगा, बशर्तें डीपी ने लाभार्थी स्वामी के साथ-साथ डिपॉजिटरी को 30 दिन से कम समय के अंदर लिखित सूचना दी हो। उसी प्रकार, लाभार्थी स्वामी को डीपी के पास धारित अपना डीमैट खाता बंद करने का अधिकार होगा बशर्तें उसके द्वारा डीपी को कोई भी बकाया प्रभार देय न हो। ऐसी स्थिति में लाभार्थी स्वामी यह विशेष रूप से उल्लेख करेंगे कि उनके डीमैट खाते की शेष राशि लाभार्थी स्वामी के किसी अन्य डीपी के पास धारित अन्य डीमैट खाते में अंतरित की गई है या धारित प्रतिभूति शेष को पुनः कागजी रूप में शुरू करना है।

The DP shall have the right to close the demat account of the Beneficial Owner, for any reasons whatsoever, provided the DP has given a notice in writing of not less than thirty days to the Beneficial Owner as well as to the Depository. Similarly, the Beneficial Owner shall have the right to close his/her demat account held with the DP provided no charges are payable by him/her to the DP. In such an event, the Beneficial Owner shall specify whether the balances in their demat account should be transferred to another demat account of the Beneficial Owner held with another DP or to rematerialize the security balances held.

18. लाभार्थी स्वामी के अनुरोध के आधार पर डीपी ऐसी प्रतिभूति शेषराशि के अंतरण या इन्हें कागजी रूप देने की प्रक्रिया डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तीस दिनों के अंदर शुरू करेंगे। बशर्तें कि इसके अतिरिक्त डीमैट खाते को बंद करना लाभार्थी स्वामी या डीपी दोनों के अधिकारों, देयताओं और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा और इन पक्षों को उनके संतोषजनक समापन तक जोड़े रखने हेतु जारी रहेगा।

Based on the instructions of the Beneficial Owner, the DP shall initiate the procedure for transferring such security balances or rematerialize such security balances within a period of thirty days as per procedure specified from time to time by the depository. Provided further, closure of demat account shall not affect the rights, liabilities and obligations of either the Beneficial Owner or the DP and shall continue to bind the parties to their satisfactory completion.

## प्रभारों के भुगतान में चूक / Default in payment of charges

19. खंड 5 एवं 6 में उल्लिखित किसी राशि के मांग की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भुगतान में लाभार्थी स्वामी द्वारा हुई चूक के मामले में, डीपी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते को बंद करने के लिए डीपी ऐसी चूक की अवधि के लिए डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर पर प्रभार लगा सकता है।

In event of Beneficial Owner committing a default in the payment of any amount provided in Clause 5 & 6 within a period of thirty days from the date of demand, without prejudice to the right of the DP to close the demat account of the Beneficial Owner, the DP may charge interest at a rate as specified by the Depository from time to time for the period of such default.

20. लाभार्थी स्वामी द्वारा उपर्युक्त खंड 5 एवं 6 में उल्लिखित किसी राशि के भुगतान में असफल रहने पर लाभार्थी स्वामी को दो दिन का नोटिस देने के बाद डीपी के पास लाभार्थी स्वामी के अनुरोधों की प्रोसेसिंग को उस समय तक रोकने का अधिकार होगा जब तक वह ब्याज सहित भुगतान, यदि कोई हो, न कर दें। In case the Beneficial Owner has failed to make the payment of any of the amounts as provided in Clause 5&6 specified above, the DP after giving two days notice to the Beneficial Owner shall have the right to stop processing of instructions of the Beneficial Owner till such time he makes the payment along with interest, if any.

## डिपॉजिटरी की देयता / Liability of the Depository

21. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 16 के अनुसार, /As per Section 16 of Depositories Act, 1996,

1. उस समय लागू किसी अन्य नियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, डिपॉजिटरी या सहभागी की असावधानी के कारण लाभार्थी स्वामी को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति डिपॉजिटरी करेंगे।

Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, any loss caused to the beneficial owner due to the negligence of the depository or the participant, the depository shall indemnify such beneficial owner.

2. यदि उपर्युक्त खंड (1) के अधीन सहभागी की असावधानी के कारण हुए इस नुकसान की क्षतिपूर्ति डिपॉजिटरी द्वारा की गई हो तो डिपॉजिटरी के पास ऐसे सहभागी से उक्त राशि को वसूल करने का अधिकार होगा।

Where the loss due to the negligence of the participant under Clause (1) above, is indemnified by the depository, the depository shall have the right to recover the same from such participant.

## खातों की फ्रीजिंग/ डीफ्रीजिंग/ Freezing/ Defreezing of accounts

22. उप विधियों और कारोबार नियमों/परिचालन अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और अवरोधों के अधीन लाभार्थी स्वामी डीपी के पास संचालित अपने डीमैट खाते पर रोक लगाने/रोक हटाने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

The Beneficial Owner may exercise the right to freeze/defreeze his/her demat account maintained with the DP in accordance with the procedure and subject to the restrictions laid down under the Bye Laws and Business Rules/Operating Instructions.

23. डीपी या डिपॉजिटरी के पास किसी विनियामक या न्यायालय या अन्य सांविधिक प्राधिकरण से अनुरोधों के प्राप्त होने पर लाभार्थी स्वामी के खातों पर रोक लगाने/रोक हटाने का अधिकार होगा।

The DP or the Depository shall have the right to freeze/defreeze the accounts of the Beneficial Owners on receipt of instructions received from any regulator or court or any statutory authority.

## निवेशक शिकायतों का निवारण / Redressal of Investor grievance

24. डीपी शिकायत की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर लाभार्थी स्वामी की डीपी के विरुद्ध किए गए सभी शिकायतों का निवारण करेंगे।

The DP shall redress all grievances of the Beneficial Owner against the DP within a period of thirty days from the date of receipt of the complaint.

## प्राधिकृत प्रतिनिधि / Authorized representative

25. यदि लाभार्थी स्वामी कॉर्पोरेट निकाय या विधिक निकाय है, तब वह खाता खोलने के फॉर्म के साथ-साथ, इनके द्वारा अधिकृत उन अधिकारियों की सूची डीपी को प्रस्तुत करेंगे जो प्रतिभागी के साथ इनकी ओर से प्रतिनिधित्व और संपर्क करेंगे। उसके बाद ऐसी सूची में जोड़, घटाव या बदलाव सहित किसी परिवर्तन की सूचना सहभागी को दी जाएगी।

If the Beneficial Owner is a body corporate or a legal entity, it shall, along with the account opening form, furnish to the DP, a list of officials authorized by it, who shall represent and interact on its behalf with the Participant. Any change in such list including additions, deletions or alterations thereto shall be forthwith communicated to the Participant.

## विधि और क्षेत्राधिकारिता / Law and Jurisdiction

26. इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट विशेष अधिकारों के अतिरिक्त डीपी और लाभार्थी स्वामी उन सभी अन्य अधिकारों के प्रयोग के हकदार होंगे जो संबंधित डिपॉजिटरी के नियमों, उप-विधियों और विनियमनों के अधीन हैं जिसमें डीमैट खाते खोले गए हैं या सेबी के नियमों और विनियमनों के अंतर्गत उन्हें प्राप्त हैं जिनके अधीन परिपक्व/ नोटिस जारी किए गए हैं।

In addition to the specific rights set out in this document, the DP and the Beneficial owner shall be entitled to exercise any other rights which the DP or the Beneficial Owner may have under the Rules, Bye Laws and Regulations of the respective Depository in which the demat account is opened and circulars/notices issued there under or Rules and Regulations of SEBI.

27. इस दस्तावेज़ के प्रावधान हमेशा सरकारी अधिसूचना, सेबी द्वारा जारी किसी नियम, विनियम, दिशानिर्देश और परिपक्व/ नोटिसों और संबंधित डिपॉजिटरी जहां लाभार्थी स्वामी अपना खाता संचालित करते हैं, के समय-समय पर लागू नियमों, विनियमों और उपविधि से आबद्ध होंगे।

The provisions of this document shall always be subject to Government notification, any rules, regulations, guidelines and circulars/ notices issued by SEBI and Rules, Regulations and Bye-laws of the relevant Depository, where the Beneficial Owner maintains his/ her account, that may be in force from time to time.

28. लाभार्थी स्वामी और डीपी डिपॉजिटरी की उपविधि के अधीन निर्धारित विवाचन और सुलह की प्रक्रिया से आबद्ध होंगे और ऐसी प्रक्रिया डीपी और लाभार्थी स्वामी के बीच किसी भी विवाद पर लागू होंगी।

The Beneficial Owner and the DP shall abide by the arbitration and conciliation procedure prescribed under the Bye-laws of the depository and that such procedure shall be applicable to any disputes between the DP and the Beneficial Owner.

29. इस दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां लेकिन जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, वे जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ लगाया जाए जो डिपॉजिटरी और/या सेबी के अधीन जारी नियमों, उपविधियों, और विनियमों और परिपक्व/नोटिसों में निर्धारित किए गए हैं।

Words and expressions which are used in this document but which are not defined herein shall unless the context otherwise requires, have the same meanings as assigned thereto in the Rules, Bye-laws and Regulations and circulars/notices issued there under by the depository and/or SEBI

30. सेबी/ डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित अधिकार और सीमाओं में कोई परिवर्तन ग्राहक की जानकारी में तत्काल लाया जाए।

Any changes in the rights and obligations which are specified by SEBI/Depositories shall also be brought to the notice of the clients at once.

31. सेबी के नियमों और विनियमों में बदलाव के कारण यदि पार्टियों के अधिकार और सीमाओं में परिवर्तन होता होता है तो ऐसे परिवर्तनों में इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पार्टियों के अधिकारों और सीमाओं के परिवर्तनों में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

If the rights and obligations of the parties hereto are altered by virtue of change in Rules and regulations of SEBI or Bye-laws, Rules and Regulations of the relevant Depository, where the Beneficial Owner maintains his/her account, such changes shall be deemed to have been incorporated herein in modification of the rights and obligations of the parties mentioned in this document.



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड, मुंबई- 400 005.

IDBI Bank Limited, Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.

टोल फ्री नंबर /Toll Free Numbers : 1800-209-4324 / 1800-22-1070 , गैर टोल फ्री नं./ Non- Toll Free Number: 022-67719100.

विज़िट करें / Visit us: [www.idbibank.in](http://www.idbibank.in)

